

HINDI GRAMMER
AND
WORKSHEET FOR CLASS 9th & 10th

एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण-समूह शब्द कहलाते हैं।

जैसे -सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि।

दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि -

1. शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं।
2. शब्द सार्थक वर्ण-समूह या अक्षर-समूह होते हैं।
3. शब्द स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से होता है।

जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बँध जाता है, तब वह शब्द 'पद' बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही 'पद' है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बँधकर शब्द 'पद' बन जाता है।

जैसे -सीता गाती है।

ईश्वर रक्षा करे।

यहाँ 'सीता', 'ईश्वर' आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 'पद' में परिवर्तित हो गए हैं।

जब सार्थक वर्ण-समूह अर्थात् अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता है बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि दर्शाता है।

जैसे -राम आम खा रहा है।

इस वाक्य में 'राम' और 'आम' शब्द का पद परिचय है 'संज्ञा', और 'खा रहा है' का पद परिचय है 'क्रिया'।

शब्द पद कब बन जाता है

जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब उसे 'पद' कहते हैं। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है, तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को 'पद' कहा जाता है।

जैसे -

राम आम खा रहा है।

इस में राम, आम, खा रहा है ये सभी पद हैं।

शब्द व पद में अंतर	
शब्द	पद
1. शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है।	1. पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है।
2. शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है।	2. पद का व्याकरणिक परिचय होता है।
3. शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं।	3. पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है।
4. शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं होता।	4. पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से सम्बन्ध होता है।

पदों के नाम	बताई जाने वाली बातें
१) संज्ञा	वस्तु ,व्यक्ति , स्थान आदि का बोध बताते हैं।
२) सर्वनाम	संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं।
३) विशेषण	संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
४) क्रिया	किसी काम का होना या किया जाना बताते हैं।
५) क्रियाविशेषण	क्रिया की विशेषता बताते हैं।
६) समुच्चयबोधक	शब्दों ,वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं।
७) संबंधबोधक	संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध स्पष्ट करते हैं।
८)विस्मयादिबोधक	हर्ष,क्रोध,आश्चर्य ,उत्साह आदि भावों को प्रकट करते हैं।

1) शब्द किसे कहते हैं ?

उत्तर – एक या अनेक वर्णों से बनाए गए अर्थपूर्ण समूह शब्द कहलाता है।

2) पद किसे कहते हैं ?

उत्तर – जब अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है , तो उस शब्द को पद कहते हैं।

3) शब्द और पद में क्या अंतर है ?

उत्तर – एक या अनेक वर्णों से बनाए गए अर्थपूर्ण समूह शब्द कहलाता है। उदाहरण- राम ,आम

जब अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है , तो उस शब्द को पद कहते हैं
उदाहरण-

राम आम खा रहा है। इस में राम, आम, खा रहा है ये सभी पद हैं।

- निम्नलिखित वाक्यों में काले पदों का परिचय दीजिए-

१) लालकिला **यमुना** के तट पर है।

उत्तर – संबंध कारक

2) यह कुर्सी बहुत **छोटी** है।

उत्तर – गुणवाचक विशेषण

3) **वाह!** कितने सुंदर फूल है।

उत्तर – विस्मयादिबोधक (आश्चर्य)

४) नीरजा ने छत पर बैठकर पूजा की।

उत्तर – कर्ता कारक

५) मैं **और** रमेश दोनों मेला देखने जाएंगे।

उत्तर – समानाधिकरण समुच्चयबोधक

६) धीरे – धीरे **आकाश** में बादल छ गए।

उत्तर – जातिवाचक संज्ञा

७) ताजमहल एक **सुंदर** भवन है।

उत्तर – गुणवाचक विशेषण

८) **इस** संसार में सत्य की सदा जय होती है।

उत्तर – निश्चयवाचक सर्वनाम

९) **धीरे -धीरे** कुछ लोग हमारी तरफ आ गए।

उत्तर – रीतिवाचक क्रियाविशेषण , संयुक्त क्रिया

१०) रमेश **आज** कलकता गया।

उत्तर – कालवाचक क्रियाविशेषण

११) पिताजी **कुछ** पुस्तके लिए हैं।

उत्तर – संख्यावाचक विशेषण

संज्ञा की परिभाषा

किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे – मनुष्य (जाति), अमेरिका, भारत (स्थान), बचपन, मिठास(भाव), किताब, टेबल(वस्तु) आदि।

संज्ञा के भेद

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा
2. भाववाचक संज्ञा
3. जातिवाचक संज्ञा
4. द्रव्यवाचक संज्ञा
5. समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा

व्यक्तिवाचक संज्ञा :जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे- भारत, चीन (स्थान), किताब, साइकिल (वस्तु), सुरेश,रमेश,महात्मा गाँधी (व्यक्ति) आदि। रमेश बाहर खेल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं।

जातिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे- मोबाइल, टीवी (वस्तु), गाँव, स्कूल (स्थान), आदमी, जानवर (प्राणी) आदि। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बिल्ली चूहे खाती है।

भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे- बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। ज्यादा दोड़ने से मुझे थकान हो जाती है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी।

द्रव्यवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे- कोयला, पानी, तेल, घी आदि। मेरे पास सोने के आभूषण हैं। एक किलो तेल लेकर आओ।

समुदायवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे- भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गयी।

नीचे लिखे वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा (**common noun**) भरकर वाक्य

पूरे करिए – (पाठशाला, नदी , मोर , राज्य , किताबें , पहाड़ , कोयल , शिकारी , चोर , कक्षा , फुटबॉल , बिल्ली , पक्षी , आम , बाग)

१. भारत में कई ----- हैं ।
२. मुझे ----- पर चढ़ना अच्छा लगता है ।
३. -----ने सिंह का शिकार किया ।
४. शीघ्र ही ----- आँखों से ओझल हो गया ।
५. मेरी ----- में कल छुट्टी थी ।
६. आज ----- के पास बहुत भीड़ थी ।
७. ----- की बोली में मिठास होती है ।
८. ----- एक सुन्दर पक्षी है ।
९. मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत ----- हैं ।
१०. आकाश में ----- उड़ते हैं ।
११. मेरी ----- में तीस लड़के पढ़ते हैं ।
१२. ----- में फूल खिलते हैं ।
१३. ----- म्याऊँ-म्याऊँ करती है ।
१४. यह -----बहुत मीठा है ।
१५. बालक ----- से खेल रहा है ।

Two

नीचे लिखे वाक्यों में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अलग कीजिए -

वाक्य	जातिवाचक	व्यक्तिवाचक
१. स्मिति पुस्तक पढ़ रही है।	-----	-----
२. आकाश में पक्षी उड़ते हैं।	-----	-----
३. यह मेरी साइकिल है।	-----	-----
४. अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं।	-----	-----
५. गाँधी जी को राष्ट्र-पिता कहा जाता है।	-----	-----
६. दिल्ली भारत की राजधानी है।	-----	-----
७. मनु नन्हा बालक है।	-----	-----
८. मेरे देश का नाम भारत है।	-----	-----
९. राम दशरथ के बड़े बेटे थे।	-----	-----
१०. सुभाष रेडियो सुन रहा है।	-----	-----

इस प्रकार "अंगूर" एक फल का नाम है। "कुत्ता" एक प्राणी का नाम है। "औरत" भी एक प्राणी का नाम है। "चकली" एक खिलौने का नाम है। अतः अंगूर, कुत्ता, औरत, चकली ये सभी नाम हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का नाम होता है जैसे - हाथी, गाय, घोड़ा, ऊँट ये पशुओं के नाम हैं। स्कूल, विद्यालय, घर, मंदिर - ये स्थानों के नाम हैं। विमला, कमला, अनु, रमा - ये लड़कियों के नाम हैं। इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। अब आप लिखिए-

१. तीन लड़कियों के नाम -----
२. तीन लड़कों के नाम -----
३. तीन फलों के नाम -----

बहुविकल्पीय प्रश्न

- (i) मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
(क) दो (ख) तीन
(ग) चार (घ) पाँच
- (ii) जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं।
(क) जातिवाचक (ख) व्यक्तिवाचक
(ग) भाववाचक संज्ञा (घ) इनमें से कोई नहीं
- (iii) 'बचपन में मैं बड़ा शरारती था'। वाक्य में संज्ञा शब्द है।
(क) मैं (ख) शरारती
(ग) बड़ा (घ) बचपन
- (iv) 'यह पर्वत बहुत ऊँचा है।' में रेखांकित शब्द है।
(क) व्यक्तिवाचक संज्ञा (ख) जातिवाचक संज्ञा
(ग) भाववाचक संज्ञा (घ) इनमें से कोई नहीं।
- (v) इस फल की उतर गई है। ('मीठा' शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए।)
(क) मिठाई (ख) मीठा मन
(ग) मिठास (घ) मीठत्व

1. संज्ञा किसे कहते हैं?
2. संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं?
3. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
4. जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
5. समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
6. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
7. द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? *